

Date: 7 October 2020

To,

The Manager,
Department of Corporate Services,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

Scip Code: 505690


Subject: Update regarding Voluntary Delisting of the Equity Shares of Brady and Morris Engineering Company Limited (the "Company") in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended from time to time ("Delisting Regulations") – Corrigendum

Dear Sir/Madam,

Further to the earlier intimation in connection with the communication regarding delisting offer from the merchant banker (on behalf of the promoters), please find enclosed copy of the Public Announcement for your records and further dissemination.

Yours Faithfully,

For **Brady and Morris Engineering Company Limited**



Rajender Kumar Sharma

Director (DIN: 01215327)



CIL: Sustainability of strong September numbers crucial

Low e-auction prices and ongoing coal block auctions weigh on sentiment

NIJAL JADHARI
New Delhi, 6 October

The 31-per cent growth in despatches for September should have given Coal India's (CIL's) investors a reason enough to cheer. But it has failed to lift sentiment for the stock, which has been on a downturn for the past one year and had hit a 52-week low on September 30. Although it gained more than 1 per cent on Monday, it was down 1.4 per cent on Tuesday. So, what is worrying the Street?

The strong growth in September despatches brings some relief to CIL, which has seen continuous pressure on sales during the current year impacted by the Covid-19 pandemic. However, even after strong September numbers, the cumulative sales volume for the first six months of 2020-21 (FY21) is down 7.6 per cent year-on-year (YoY). Moreover, the surge in September comes on the low base of last year. September 2019 sales had seen the impact of high rainfall as well as law and order issues.

Moreover, the coal-based power generation is trending higher. This has pushed up CIL's coal offtake to thermal plants by 5 per cent month-on-month in September, according to analysts' data. Since this is on a low base, all eyes will be on volume trajectory in the coming months.

The volume growth has been a key concern of the Street. While despatches during the first six months of FY21 have been weak, despatches in 2019-20, too, had declined 4.3 per cent over the previous year. Not only has CIL's sales volume performance disappointed, there



Increasing concerns on rising competition from private players.

On the one hand, coal block auctions can lead to competition setting in for CIL. On the other, it also means many of its customers vying coal blocks in these auctions may cover a period of time have their own supplies from captive mines. After a few years (that may be required for mine development and ramping up production by private players), CIL's monopoly in the domestic arena may end.

Additional concerns prevail on rising renewable power capacities and simultaneously, lower new thermal plants. This can impact CIL's future volume outlook.

While the company is addressing concerns and targeting import substitution, the benefits are yet to accrue. Therefore, the Street will be watchful

on the success of such initiatives. Analysts say gains can accrue if CIL is able to capture even half the quantity of coal being imported into India.

Meanwhile, there is pressure on realisations too, especially of coal e-auction. International coal prices are down significantly and this, in turn, puts pressure on more profitable e-auction volumes, which fetch market-determined prices.

The e-auction premiums (over and above the notified price) have regularly declined. Analysts say even though the company sells most of its produce under the fuel supply agreement, where the supply price does not change much, e-auctions contribute to a third of CIL's profitability. The e-auction realisations during the June quarter had plunged 24 per cent YoY to ₹2,105 per tonne, and analysts anticipate more

pressure in the September quarter. Due to weak volumes and realisations, pressure on profit, too, has increased and is keeping investors anxious with regard to dividend yield.

"If profits decline, how will CIL be able to maintain good dividend yield?" asks Rupesh Sankhe at Elara Capital. Sankhe says with multiple concerns on volume growth and rising competition, the stock is not able to command the price-to-earnings multiples as witnessed earlier.

Though Sankhe, like most analysts, is positive on the stock looking at cheap valuations and expectations of demand improvement, the sentiment can improve only if CIL's volumes start growing, which, in turn, can help drive e-auction premiums and its profit. Till then, not much upside may be seen in the stock, as investors will be exploring other investment options in the market, says an analyst at a domestic brokerage.

REPORT CARD

Some recovery expected in FY21 but more needed

	FY20	FY21E	FY22E
Production (MT)	602.2	560.0	599.0
Sales (MT)	381.8	346.9	399.2
FSA volumes (MT)	501.0	452.4	500.0
E-auction (MT)	65.4	82.6	70.1
FSA realisations (₹/tonne)	1,538.0	1,472.9	1,504.3
E-auction premium (%)	41.6	14.2	23.2
Ebitda (₹/tonne)	472.1	341.9	391.8

E: Estimates in ₹ million tonnes; FSA: fuel supply agreement; Ebitda: earnings before interest, tax, depreciation and amortisation; Source: Telbharis Securities

Lower TCS rate on funds remitted for education

Higher rate will be levied if PAN isn't furnished

BHINDISHA SARANG

A new income-tax (I-T) rule on foreign exchange transactions came into effect from October 1. The Government of India, through the Finance Act, 2020, introduced new provisions, enabling levy of 5 per cent tax collected at source (TCS) on foreign remittances above ₹7 lakh in a financial year.

This new sub-section (1G) in Section 206C provides for levy of TCS on foreign remittances under the liberalised remittance scheme (LRS). TCS will be collected unless tax has already been deducted at source (TDS) on that amount.

This provision has been imposed on foreign visits for two reasons:

Says Sarath Sarana, founder, RSM India: "It will enable the government to keep close tabs on the amount remitted to a foreign jurisdiction." It will also prevent tax evasion. A businessman may not file returns, but goes on a foreign tour every year with his family.


Adds Sarana: "It may bring such people into the tax net who incur huge expenditure on foreign travel, but do not file tax return, or pay I-T that is not commensurate with the expenses they incur on foreign travel."

Foreign tours

The tax shall be collected on the amount or aggregate of the amount in excess of ₹7 lakh if the remittance is made for any purpose other than for the purchase of an overseas tour package. If the remittance is made for the purchase of an overseas tour package, then the threshold limit of ₹7 lakh shall not apply, and tax shall be collected on the total amount remitted.

If a person does not furnish his permanent account number (PAN), then TCS will be collected at the rate of 10 per cent.

Says Vivek Jalan, partner at Tax Connect Advisory Services: "If a person makes remittance under LRS and in the same financial year, purchases an overseas tour package, will the limit of ₹7 lakh be subsumed if foreign currency is purchased for the overseas tour package? The answer is 'no': the limit shall not be subsumed."



HOW WILL TCS BE APPLIED

₹ 10,00,000
Amount remitted abroad*

₹ 7,00,000 TCS applicable on the amount in excess of (₹ 15,00,000 less 45%)

₹ 3,00,000 TCS will be applicable on

Study overseas
For students planning to go abroad for studies and have taken an education loan from a financial institution, the rate of TCS shall be 0.5 per cent on the amount exceeding ₹2 lakh. The amount being remitted should have been sourced from an education loan as defined in Section 80E. If the person does not furnish his PAN, TCS shall be collected at the rate of 5 per cent.

Says Rana: "The government has fixed the TCS rate at 0.5 per cent to help students in case of educational remittances, so as to not make a big dent in their finances."

If money is remitted under LRS for any other purpose, TCS will be collected at 5 per cent if the person furnishes his PAN, and at 10 per cent if he does not.

Any TCS paid will reflect in Form 26AS and credit for it can be claimed while filing the tax return. If there is no tax liability, the sum can be claimed as refund.

Finally, as Kapil Rana, founder and chairman, HootBooks, advises: "People should be ready with all the evidence and proof of source of funds, and purpose of travel to avoid tax litigation."

Fundraising jumped 64% to ₹1.1 trillion in August

PREES TRUST OF INDIA
New Delhi, 6 October

Companies garnered more than ₹1 trillion from the capital markets in August, a surge of 64 per cent from the preceding month, with private placement of debt instruments emerging as the most preferred route for financing business needs.

The funds have been mopped-up

mainly for business expansion plans, loan repayments and working capital requirements.

According to data available with the markets regulator Sebi, companies raised ₹1.1 trillion in August, as against ₹665.96 crore in July 2020 by way of issuing equity and debt securities.

As much as ₹58,419 crore was mopped up from private placement of debt securities and ₹45,471 crore

through private placement of equity, which include qualified institutional placement (QIP) and preferential allotment routes.

A total of ₹42,725 crore and ₹2,746 crore were raised through QIP and issuance of shares on preferential allotment basis, respectively.

In comparison, corporates had mobilised just ₹2,882 crore from private placement of equities in July.

When it comes to raising funds through public issuance in August, 66.09 per cent was raised through rights issue and ₹1.5 crore by SMEs' initial share sales.

There was no public issue of corporate bonds in the month of August 2020. However, during July 2020, there was one public issue of corporate bonds amounting to ₹160 crore, the data showed.

NOTICE CUM ADDENDUM

EXTENSION OF CLOSURE DATE FOR NEW FUND OFFER OF SBI FLOATING RATE DEBT FUND

Notice is hereby given that the closing date for the New Fund Offer period of SBI Floating Rate Debt Fund ("the Scheme"), an open-ended debt scheme investing predominantly in floating rate instruments (including fixed rate instruments converted to floating rate exposures using swaps / derivatives), has been extended from October 08, 2020 to October 20, 2020.

All other terms and conditions of the Scheme remain unchanged. This notice forms an integral part of the Scheme Information Document & Key Information Memorandum of the Scheme, as amended from time to time.

Investors are requested to take note of the above.

For SBI Funds Management Private Limited
Sd/-
Vinay M. Tonsar
Company Secretary & CEO

Asset Management Company: SBI Funds Management Private Limited (A Joint Venture between SBI & AMFNC) (CIN: 180599MNP190017005000); Trustee: SBI Mutual Fund Trustees Company Pvt. Ltd. (CIN: 180591MNP190017005000); Sponsor: State Bank of India Regd. Office: 9th Floor, Crescoro, C - 38 & 39, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051
Tel: (91-22) 41790000; Fax: (91-22) 41790007; E-mail: publicaffairs@sbi-fund.com; www.sbi-fund.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

SBI MF005/001/20

IIFL WEALTH MANAGEMENT LIMITED
CIN: 177410MHND0009PL177884
Regd. Office: IIFL Centre, Kamala Kidwai Senapati Road Marg, Lower Parel (West), Mumbai (MH) - 400013
Tel: (91-22) 4876 5600 Fax: (91-22) 4706 4646
E-mail: sec@iiflwealth.com; Website: www.iiflwealth.com

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, October 28, 2020 to inter alia consider and approve, Sanadeline and Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the Second quarter and half year ended September 30, 2020.

This information is available on the Company's website at www.iiflwealth.com and may also be accessed on the website of the stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For IIFL Wealth Management Limited
Sd/-
Ashutosh Naik
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: October 5, 2020

HAVE A GOOD BUSINESS MORNING!

Business Standard newspaper
delivering safely to homes and offices

For details, SMS reach to 57675 or email order@bsmail.in

Business Standard
Insight Out

facebook whatsapp business-standard.com

BRADYS

BRADY & MORRIS ENGINEERING CO. LTD.

POST OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTEMPT OF EQUITY SHAREHOLDERS OF BRADY AND MORRIS ENGINEERING COMPANY LIMITED FOR DELISTING OF EQUITY SHARES

Corporate Identification No.: L25109MH1999PLC04729

Registered Office: Brady House, 12-14 West Nariman Road, Mumbai - 400017
Tel No: +91 22 22848511; Fax No: +91 22 22841455; E-mail: info@brady.co.uk
Website: www.bradyco.in; Compliance Officer: Ms. Khushi Mehta Bafna

This post offer public announcement dated "17 October 2020" ("Post Offer PA") is being issued by Shriam Holdings Private Limited (the "Acquirer") along with 95% of its Equity Shares in the Public Shareholders (as defined under Regulation 2(1)(c) of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, (the "Delisting Regulations") as amended from time to time ("Public Shareholders") of Brady and Morris Engineering Company Limited (the "Company"), in respect of the proposed acquisition and consequent voluntary delisting of equity shares of the Company with a face value of ₹16 each ("Equity Shares") from the BSE Limited ("BSE"), pursuant to the applicable provisions of the Delisting Regulations and in accordance with the terms and conditions set out in the public announcement dated 14 September 2020 and published on 14 September 2020 ("Public Announcement") in (Business Standard (English), all editions), (i) Business Standard (Hindi), all editions, and (ii) Lankadeep (Bengali, Marathi, English) editions, the "Announcement", and the letter of offer dated 14 September 2020 ("Letter of Offer").

This Post Offer PA is in continuation of and should be read in conjunction with the Public Announcement and the Letter of Offer. Capitalized terms used in this Post Offer PA and not defined herein shall have the same meaning as ascribed to it in the Public Announcement and the Letter of Offer.

The Acquirer and PAC issued the Public Announcement and Letter of Offer to acquire up to 1,50,000 Equity Shares representing 20.25% of the total issued equity share capital ("Offer Shares") of the Company from the Public Shareholders in accordance with the Delisting Regulations and on the terms and conditions set out in the Public Announcement and the Letter of Offer. The Public Shareholders holding Equity Shares of the Company were invited to tender the Equity Shares ("Bid") pursuant to the reverse book building process as prescribed in the Delisting Regulations through the Stock Exchange Mechanism ("Reverse Book Building") during the period commencing on Wednesday, 23 September 2020 and ending on Tuesday, 29 September 2020 in accordance with the Delisting Regulations.

1. DISCOVERED PRICE
1.1 In terms of Regulation 15(1) of the Delisting Regulations, the price determined as the discovered price (being the price at which the shareholding of the Promoter reaches 90% newly acquired) of the paid-up equity share capital of the Company pursuant to the book building process in the manner specified in Schedule I of the Delisting Regulations) is - INR 170 (Rupees Seven hundred and Fifty only) per Equity Share. ("Discovered Price")

2. FAILURE OF THE DELISTING OFFER
2.1 The Acquirer and the PAC have decided to reject the Discovered Price and has also decided not to make any counter offer in terms of Regulation 15(1) of the Delisting Regulations. Accordingly, the Delisting Offer is deemed to have failed in terms of Regulation 15(1) of the Delisting Regulations.
2.2 The Acquirer and the PAC will not acquire any Equity Shares tendered by the Public Shareholders in the Delisting Offer and the Equity Shares of the Company will continue to remain listed on BSE. Further, no final application shall be made to BSE for delisting of Equity Shares, in terms of Regulation 15(2)(c) of the Delisting Regulations.
2.3 All Equity Shares tendered in the Delisting Offer shall be returned to the respective Public Shareholders within 10 working days from the Bid Closing Date in accordance with Regulation 19(2)(b) of the Delisting Regulations.
2.4 Further, as per the terms of Regulation 19(2)(c), the escrow account opened under Regulation 15 of the Delisting shall be closed.
2.5 All other terms and conditions set forth in the Public Announcement and Letter of Offer remain unchanged.

4. The names of Company Secretary and the Compliance Officer of the company are as follows:
Name: Ms. Khushi Mehta Bafna
Designation: Company Secretary & Compliance Officer
Address: 12-14, Brady House, West Nariman Road, Fort, Mumbai, Maharashtra, 400017
Email: info@brady.in
Tel No: +91 (022) 2284 8480
This Post Offer PA is issued by the Acquirer and the PAC in terms of Regulation 15 of the Delisting Regulations.

MANAGER TO THE OFFER
KUNWARI FINSTOCK PRIVATE LIMITED
Block B, 4th Floor, Sanku Science Tower,
Off B.G. Highway Road, Marine Lines,
Mumbai-400051
CIN: U65102MH1999FTCO0878
Tel No: +91 79 9606 9000
F: +91 79 2910 2796
Email: info@kfwari.com
Website: www.kfwari.com
Contact Person: Mr. Alok Choudhary
SEBI Reg. No.: MSIN000011264

REGISTRAR TO THE OFFER
BUSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
Block B, 4th Floor, Sanku Science Tower,
Near Cuckoo, Marine Road, Marine Lines,
(East), Mumbai - 400051
CIN: U65102MH1999FTCO0878
Tel No: +91-22-4263 6200
F: 022-28472077/62636200
Email: info@bushare.com
Website: www.bushare.com
Contact Person: Mr. Alok Choudhary
SEBI Reg. No.: 20000001385

For and on behalf of the Board of Directors of
Shriam Holdings Private Limited and W R Brady & Co. Limited
Mr. Vaidhar Morarka
Director of Shriam Holdings Private Limited
Place: Delhi
Date: 7 October 2020
Mr. Vaidhar Morarka
Director of W R Brady & Co. Limited

मौद्रिक नीति में यथास्थिति बरकरार रहने के आसार

अनुप रॉय
नंबर 6 अक्टूबर

समितिकी बैठक पर नजर

अर्थशास्त्रियों और बैंक कारोबारियों ने 9 अक्टूबर को नीतिगत दलों में यथास्थिति बरकरार रहने की उम्मीद जताई है। उनका मानना है कि मौद्रिक नीति समिति (एएमपीसी) पहले की ही बैठक के अंतिम फैसलों पर एक हस्ताक्षरित दस्तावेज के लिए फिलहाल इंतजार करेगी। इसके अलावा दस्तावेज में नए सदस्यों के दलों से शामिल होने के कारण भी पूर्णतः निर्णयों को बरकरार रखने का दायरा हो सकता है।



अर्थशास्त्रियों ने उम्मीद जताई है कि फिलहाल अर्थशास्त्रियों के मौद्रिक नीति विभाग (एएमपीसी) पर अधिक नियंत्रण होगा। कोटक इंडिया बैंक की वरिष्ठ अर्थशास्त्री उपराधा अग्रवाल का मानना है कि फिलहाल में नए सदस्यों के शामिल होने के कारण मौद्रिक नीतिगत दलों में फिलहाल देरवरा देखा जा सकता है।

इंडिया रेटियर्स के मुख्य अर्थशास्त्री देवेन्द्र पंत ने कहा, 'एएमपीसी में जिन लोगों की नियुक्ति हुई है वे नियमित तौर पर अव्यवस्था पर नजर रखेंगे। अंततः वह नियंत्रण छह बुद्धिजीवीयों का होगा। ऐसा नहीं लगता है कि सदस्यों को नियुक्ति से मौद्रिक नीति के तंत्रों पर कोई खतरा प्रभाव पड़ेगा।' वीपी दत्त फिलहाल 4 पीसीटी है जबकि रिजर्व बैंक पर 3.35 पीसीटी है।

इंडिया रेटियर्स के मुख्य अर्थशास्त्री देवेन्द्र पंत ने कहा, 'एएमपीसी में जिन लोगों की नियुक्ति हुई है वे नियमित तौर पर अव्यवस्था पर नजर रखेंगे। अंततः वह नियंत्रण छह बुद्धिजीवीयों का होगा। ऐसा नहीं लगता है कि सदस्यों को नियुक्ति से मौद्रिक नीति के तंत्रों पर कोई खतरा प्रभाव पड़ेगा।' वीपी दत्त फिलहाल 4 पीसीटी है जबकि रिजर्व बैंक पर 3.35 पीसीटी है।

विद्यमान स्टैंडर्ड वे काबज में शामिल सभी अर्थशास्त्रियों और बैंक कारोबारियों ने उम्मीद जताई कि नीतिगत दलों में यथास्थिति फिलहाल जारी रहेगी। सरकार ने दूर संघर्ष को भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के प्रोफेसर जगत वाम, प्रधमपंजी के अधिकार सहायक परिषद को सदस्य आयोग गोलवल और वैशाल कार्दामिल वरिष्ठ अत्याचार इकोनॉमिक रिजर्व के वरिष्ठ सहायक शशांक भिडे को मौद्रिक नीति समिति में शामिल करने के लिए परामर्श देना है।

दिल्लीय बैंक में भी भाग लेना होगा। मौद्रिक नीति समिति की बैठक को मूल रूप से 29-30 अक्टूबर और 1 अक्टूबर को आयोजित होने की योजना है। सदस्यों की घोषणा के लिए के कारण उम्मीद टालना पड़ा। हालांकि नए सदस्य सभी पीसीटी में शामिल हो लेंगे। एएमपीसी में नए सदस्यों को नियुक्ति करने की प्रक्रिया में तत्काल शामिल होना होगा। साथ ही उच्च सुपारा, सुपारा और सुपारा को होने वाली मौद्रिक नीति की तैयारी

बना रही रहता है। फिलहाल में यथास्थिति को बरकरार रखने के पक्ष में है। इस प्रकार अर्थशास्त्रियों ने उम्मीद जताई है कि फिलहाल अर्थशास्त्रियों के मौद्रिक नीति विभाग (एएमपीसी) पर अधिक नियंत्रण होगा। भारतीय स्टेट बैंक ग्रुप के मुख्य अधिकार सहायक प्रोफेसर वरिष्ठ पंत ने कहा, 'एएमपीसी सदस्यों के शामिल होने से अर्थशास्त्रियों के किसी भी नियंत्रण

को बरकरार रखने के पक्ष में है। इस प्रकार अर्थशास्त्रियों ने उम्मीद जताई है कि फिलहाल अर्थशास्त्रियों के मौद्रिक नीति विभाग (एएमपीसी) पर अधिक नियंत्रण होगा। भारतीय स्टेट बैंक ग्रुप के मुख्य अधिकार सहायक प्रोफेसर वरिष्ठ पंत ने कहा, 'एएमपीसी सदस्यों के शामिल होने से अर्थशास्त्रियों के किसी भी नियंत्रण

को बरकरार रखने के पक्ष में है। इस प्रकार अर्थशास्त्रियों ने उम्मीद जताई है कि फिलहाल अर्थशास्त्रियों के मौद्रिक नीति विभाग (एएमपीसी) पर अधिक नियंत्रण होगा। भारतीय स्टेट बैंक ग्रुप के मुख्य अधिकार सहायक प्रोफेसर वरिष्ठ पंत ने कहा, 'एएमपीसी सदस्यों के शामिल होने से अर्थशास्त्रियों के किसी भी नियंत्रण

मौद्रिक नीति समिति के नए सदस्य

श्रीमती चौधरी और अनुप रॉय
नंबर 7 अक्टूबर

सरकार ने रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति समिति के नए सदस्यों के तौर पर जगत वाम (आर्थिक प्रबंध संस्था, अहमदाबाद) प्रोफेसर, प्रधमपंजी को भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद प्रोफेसर और वैशाल कार्दामिल वरिष्ठ अत्याचार इकोनॉमिक रिजर्व में वरिष्ठ सहायक शशांक भिडे को नियुक्त किया है। इसके साथ ही नवीन विस्तार से जानकारी दी जा रही है।



जयंत आर वर्मा

जगत वाम वरिष्ठ प्रोफेसर में यथास्थिति शामिल करने के लिए परामर्श देना है। फिलहाल अर्थशास्त्रियों के मौद्रिक नीति विभाग (एएमपीसी) पर अधिक नियंत्रण होगा। भारतीय स्टेट बैंक ग्रुप के मुख्य अधिकार सहायक प्रोफेसर वरिष्ठ पंत ने कहा, 'एएमपीसी सदस्यों के शामिल होने से अर्थशास्त्रियों के किसी भी नियंत्रण

जगत वाम वरिष्ठ प्रोफेसर में यथास्थिति शामिल करने के लिए परामर्श देना है। फिलहाल अर्थशास्त्रियों के मौद्रिक नीति विभाग (एएमपीसी) पर अधिक नियंत्रण होगा। भारतीय स्टेट बैंक ग्रुप के मुख्य अधिकार सहायक प्रोफेसर वरिष्ठ पंत ने कहा, 'एएमपीसी सदस्यों के शामिल होने से अर्थशास्त्रियों के किसी भी नियंत्रण



आरशिमा गोस्वामी

आरशिमा गोस्वामी मौद्रिक नीति विभाग में अनुपरी है। मौद्रिक नीति समिति (एएमपीसी) में नए सदस्यों के तौर पर जगत वाम (आर्थिक प्रबंध संस्था, अहमदाबाद) प्रोफेसर, प्रधमपंजी को भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद प्रोफेसर और वैशाल कार्दामिल वरिष्ठ अत्याचार इकोनॉमिक रिजर्व में वरिष्ठ सहायक शशांक भिडे को नियुक्त किया है। इसके साथ ही नवीन विस्तार से जानकारी दी जा रही है।

जगत वाम वरिष्ठ प्रोफेसर में यथास्थिति शामिल करने के लिए परामर्श देना है। फिलहाल अर्थशास्त्रियों के मौद्रिक नीति विभाग (एएमपीसी) पर अधिक नियंत्रण होगा। भारतीय स्टेट बैंक ग्रुप के मुख्य अधिकार सहायक प्रोफेसर वरिष्ठ पंत ने कहा, 'एएमपीसी सदस्यों के शामिल होने से अर्थशास्त्रियों के किसी भी नियंत्रण



शशांक भिडे

शशांक भिडे को मौद्रिक नीति समिति में शामिल करने के लिए परामर्श देना है। फिलहाल अर्थशास्त्रियों के मौद्रिक नीति विभाग (एएमपीसी) पर अधिक नियंत्रण होगा। भारतीय स्टेट बैंक ग्रुप के मुख्य अधिकार सहायक प्रोफेसर वरिष्ठ पंत ने कहा, 'एएमपीसी सदस्यों के शामिल होने से अर्थशास्त्रियों के किसी भी नियंत्रण

शशांक भिडे को मौद्रिक नीति समिति में शामिल करने के लिए परामर्श देना है। फिलहाल अर्थशास्त्रियों के मौद्रिक नीति विभाग (एएमपीसी) पर अधिक नियंत्रण होगा। भारतीय स्टेट बैंक ग्रुप के मुख्य अधिकार सहायक प्रोफेसर वरिष्ठ पंत ने कहा, 'एएमपीसी सदस्यों के शामिल होने से अर्थशास्त्रियों के किसी भी नियंत्रण

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

LIKHITHA INFRASTRUCTURE LIMITED

Our Company was incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 as "Likhitha Infrastructures Private Limited" on August 06, 1998, as a private limited company vide Certificate of Incorporation issued by ROC, Hyderabad, Andhra Pradesh. Our Company's name was subsequently changed to "Likhitha Infrastructures Private Limited" pursuant to a Fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name dated March 20, 2011 issued by ROC, Hyderabad, Andhra Pradesh. Subsequently, our Company was converted into a public limited company and the name of our Company changed to "Likhitha Infrastructure Limited" pursuant to a shareholders' resolution passed by the Extra-Ordinary General Meeting of our Company held on January 11, 2019 and a Fresh Certificate of Incorporation dated February 12, 2019 was issued by the ROC, Hyderabad. For details on change of name and registered office of our Company, please refer to charter filed "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 143 of the first term sheet prospectus ("RHP").

Registered office: Flat No. 701, Plot No. S-3-940 and S-3-940A to E, Trivandrum Shree Residency, Yellareddy Gudda, Ametepet, Hyderabad-500073, Telangana, India | Telephone: +91 82-23752687 | Email: ca@likihitha.in | Website: www.likihitha.in
Contact Person: Mr. Santhosh Kumar Gummuri, Company Secretary and Compliance Officer.
Corporate Identity Number: UHS0201G11998P0200911

OUR PROMOTERS: MR. BRUNIVASA RAO GADDIPATI AND MS. LIKHITHA GADDIPATI

PUBLIC ISSUE OF UPTO 51,60,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH OF LIKHITHA INFRASTRUCTURE LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 100/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 10/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 51,60,00,000 (₹ 516 CRORES). THE ISSUE WILL CONSTITUTE 10% OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

QIB CATEGORY: UPTO 1% OF THE ISSUE
NON-INSTITUTIONAL INVESTOR CATEGORY: NOT LESS THAN 64% OF THE ISSUE
RETAIL CATEGORY: NOT MORE THAN 35% OF THE ISSUE
Price Band: ₹ 115 to ₹ 120 per Equity Share of face value of ₹ 10 each
The Floor Price is ₹ 116.00 times of the face value and the Cap Price is ₹ 120.00 times of the face value
Bids can be made for a minimum of 125 Equity Shares and in multiples of 125 Equity Shares thereafter.

ASBA Simple, safe, smart way of Application! Mandates in Public issues. No cheque will be accepted! Applications submitted by blocked amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below.

LPI-Now available to ASBA for Retail Individual Investors ("RII") Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. LPI - Now available to ASBA for Retail Individual Investors applying through Registered Brokers, City & State. Retail Individual Investors also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SBI/SBI) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account.

*ASBA has not been enabled by all the investors except Anchor Investors (AI) only. AI may be enabled by filing the form for details on the ASBA and LPI process, please refer to the details given in ASBA Form and all other prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 284 of the RHP. The process is also available on the website of AIIB and Stock Exchanges in the General Information Document. ASBA Forms can be downloaded from the website of BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and together with BSE, the "Stock Exchanges" and can be obtained from the list of banks that is displaying on website of SEBI at www.sebi.gov.in. ** List of banks supporting LPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. For the list of LPI Apps and Banks see on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. ICICI Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Issue in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018, as amended.

BID/ISSUE PERIOD CLOSING ON: WEDNESDAY, OCTOBER 07, 2020 ADDENDUM - NOTICE TO INVESTORS

The Company has issued RHP dated September 17, 2020 and corrigendum dated October 01, 2020, in respect of IPO of the Company. Attention of investors is being brought to:

The statement in the corrigendum - "Please note that the bidders have a right to withdraw/revise their bids in light of this corrigendum", shall be supplemented with:

"All Bidders (QIBs, Non-Institutional Bidders and Retail Individual Bidders) shall have the option to withdraw their applications before the closing of the Issue. This withdrawal option can be exercised by either: through the Stock Exchange Software/ Mechanism or manually by approaching the Registrar to the Issue."

The Corrigendum shall be supplemented to the exhibit stated hereinabove and the above notice is required to be read in conjunction with it.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
 UNISTONE CAPITAL PRIVATE LIMITED 12, Floor no. 02, Shashank CHS Ltd, Mamata Link Road, Near Starcity Cinema Mahan, Mumbai-400 016, India. Telephone: +91 932297364 Email: mbs@unistonecapital.com Investor grievance email: complaint@unistonecapital.com Contact Person: Mr. Gajesh Phavik Website: www.unistonecapital.com SEBI registration number: RM000012449 CIN: U65999MH2019PTC032856	 BISHARE SERVICES PRIVATE LIMITED 1st Floor, Bharat Tin Works Building Opp. Veeranki, Mixwara Road, Marol, Andheri (East), Mumbai 400099, India. Telephone: +91 22 6263 8200 Facsimile: +91 22 6263 8200 Email: bsd@bshareinvest.com Investor grievance email: investor@bshareinvest.com Contact Person: Mr. Ashish Shoke Website: www.bshareinvest.com SEBI Registration Number: RH000001385 CIN: U65999MH1999PTC0156408	 Mr. Santhosh Kumar Gummuri Flat No. 701, Plot No. S-3-940 and S-3-940A to E, Trivandrum Shree Residency, Yellareddy Gudda, Ametepet, Hyderabad-500073, Telangana, India. Telephone: 040-23752687 Email id: ca@likihitha.in Website: www.likihitha.in Investors can contact the Company Secretary & Compliance Officer, BRLM or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode.

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP. This addendum should be read in conjunction with the Corrigendum to the RHP and RHP. This addendum shall be available on the respective websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges at www.bseindia.com, www.nseindia.com and the website of the BRLM to the Issue at www.unistonecapital.com.

For LIKHITHA INFRASTRUCTURE LIMITED
On Behalf of the Board of Directors,
Srinivasa Rao Gaddipati
Managing Director

Date: Hyderabad
Date: October 06, 2020

Likhitha Infrastructure Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an issue public offering of its Equity Shares and has filed the RHP with Registrar of Companies, Telangana at Hyderabad on September 11, 2020. The RHP shall be available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the BRLM to the Issue at www.unistonecapital.com and the website of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled "Risk Factors" beginning on page 31 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision.
The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so offered and sold within the United States, they are not registered under the Securities Act of 1933, as amended. As a result, the Equity Shares are not being offered in the United States and the securities being offered in this announcement are not being offered or sold in the United States.

बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 7 अक्टूबर 2020 सुपारा

बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 7 अक्टूबर 2020 सुपारा

बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 7 अक्टूबर 2020 सुपारा

बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 7 अक्टूबर 2020 सुपारा

बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 7 अक्टूबर 2020 सुपारा

क्र.सं.	विवरण	प्रतिशत
1	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
2	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
3	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
4	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
5	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
6	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
7	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
8	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
9	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
10	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
11	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
12	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
13	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
14	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
15	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
16	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
17	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
18	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
19	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
20	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
21	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
22	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
23	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
24	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
25	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
26	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
27	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
28	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
29	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%
30	बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2020 सुपारा	10%

बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 7 अक्टूबर 2020 सुपारा

बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 7 अक्टूबर 2020 सुपारा

बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 7 अक्टूबर 2020 सुपारा

बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 7 अक्टूबर 2020 सुपारा

बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 7 अक्टूबर 2020 सुपारा

बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 7 अक्टूबर 2020 सुपारा

बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 7 अक्टूबर 2020 सुपारा

बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 7 अक्टूबर 2020 सुपारा

मोठ्या बाबा मुंबई लक्षदीप

दुसऱ्याची प्रत्येकता लिमिटेड
दुसऱ्याची प्रत्येकता लिमिटेड
दुसऱ्याची प्रत्येकता लिमिटेड

आजारे नोटीस
मी आदर, प्रचारक मोजकरी
राहणार २२२/२०२२ क. न.

PUBLIC NOTICE
This is to inform to the General
public that my client Hiran Hanoo
Thakkar has lost/impounded the

LEGAL REMEDY
ADVOCATES, HIGH COURT
OFFICE NO. 2, DRAVIDO ROAD,
SHREE KRISHNA COMPLEX, B/D, COLLEGE

PUBLIC NOTICE
I have been granted a license to
operate a public place for the purpose
of the sale of goods and services

LEGAL REMEDY
ADVOCATES, HIGH COURT
OFFICE NO. 2, DRAVIDO ROAD,
SHREE KRISHNA COMPLEX, B/D, COLLEGE

PUBLIC NOTICE
I have been granted a license to
operate a public place for the purpose
of the sale of goods and services

LEGAL REMEDY
ADVOCATES, HIGH COURT
OFFICE NO. 2, DRAVIDO ROAD,
SHREE KRISHNA COMPLEX, B/D, COLLEGE

NOTICE
Loss of original agreement
dated 07th August 1980
between Kantilal Chaudhari
Parmar of Parmar Construction

LEGAL REMEDY
ADVOCATES, HIGH COURT
OFFICE NO. 2, DRAVIDO ROAD,
SHREE KRISHNA COMPLEX, B/D, COLLEGE

PUBLIC NOTICE
SHRI DEEPAK HASKAMULI MODY
Member/Chairman of Facto-C1, Address
C-1, Jeevan Shiksha Co-op. Housing

LEGAL REMEDY
ADVOCATES, HIGH COURT
OFFICE NO. 2, DRAVIDO ROAD,
SHREE KRISHNA COMPLEX, B/D, COLLEGE

आजारे नोटीस
मी आदर, प्रचारक मोजकरी
राहणार २२२/२०२२ क. न.

LEGAL REMEDY
ADVOCATES, HIGH COURT
OFFICE NO. 2, DRAVIDO ROAD,
SHREE KRISHNA COMPLEX, B/D, COLLEGE

सूचना
मौलिक मुंबई लक्षदीप का प्रचारक
आजारे नोटीस सविन आदर, प्रचारक

LEGAL REMEDY
ADVOCATES, HIGH COURT
OFFICE NO. 2, DRAVIDO ROAD,
SHREE KRISHNA COMPLEX, B/D, COLLEGE

PUBLIC NOTICE
This is to inform to the General
public that my client Hiran Hanoo
Thakkar has lost/impounded the

पुणेवार दि. ७ ऑक्टोबर २०२०
तयवा सूचना
मौलिक, आदरप्रार्थना, कौटुंबिक व

DCB BANK
पुणे
पुणे बँक लिमिटेड
पुणे बँक लिमिटेड

PUBLIC NOTICE
This is to inform to the General
public that my client Hiran Hanoo
Thakkar has lost/impounded the

पुणेवार दि. ७ ऑक्टोबर २०२०
तयवा सूचना
मौलिक, आदरप्रार्थना, कौटुंबिक व

DCB BANK
पुणे
पुणे बँक लिमिटेड
पुणे बँक लिमिटेड

Adv. Kavita Shah
Adv. Kavita Shah
Adv. Kavita Shah

पुणेवार दि. ७ ऑक्टोबर २०२०
तयवा सूचना
मौलिक, आदरप्रार्थना, कौटुंबिक व

DCB BANK
पुणे
पुणे बँक लिमिटेड
पुणे बँक लिमिटेड

BRADY & MORRIS ENGINEERING CO. LTD.
POST OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY
SHAREHOLDERS OF BRADY AND MORRIS ENGINEERING COMPANY LIMITED
FOR DELISTING OF EQUITY SHARES

IM+ CAPITALS LIMITED
Registered Office: 817, Atmish Bhawan, Kasurba Gandhi Marg, New Delhi - 110001, India.
POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 16 (12) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL
ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, FOR THE ATTENTION
OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

MANAGER TO THE OFFER
REGISTRAR TO THE OFFER
KUNJAL PRAKASH PRIVATE LIMITED
BANSAL SERVICES PRIVATE LIMITED

Table with 4 columns: Sr No, Particulars, Particulars Proposed in the Offer Document, Actuals

MSEIOTL invites digitally signed online bids for following tender process of MSEIOTCL
in two lot system from registered contractors, agencies on Maharashtra E-Tendering website

MANAGER TO THE OFFER
Khambita Securities Limited
C-42, South Extension Part-II, New Delhi - 110049, India

Table with 6 columns: Estimated Cost (Rs), EMD (Rs), Tender Fee (Rs), Closing Date (Submission), Tender (Technical) Opening Date, Commercial opening date

For and on behalf of the Acquirers and the PAC
Sd/-
Rakesh Kumar Singhal
Acquirer (1)